



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 26] नई दिल्ली, शनिवार, जून 30—जुलाई 6, 2007 (आषाढ़ 9, 1929)
No. 26] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 30—JULY 6, 2007 (ASADHA 9, 1929)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली-1, दिनांक 11 जून 2007

सं. आरएस./3(xi)/2007/48-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में अनुवादक, श्री मनोज कुमार को 11 जून, 2007 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में सहायक संपादक के ग्रेड में तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

2. श्री कृष्ण कुमार प्रजापत, जिन्हें पहले दिनांक 12 जनवरी, 2007 की अधिसूचना सं. आर.एस.3(xi)/2006/7-कार्मिक द्वारा तदर्थ आधार पर सहायक संपादक के रूप में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया था, को अब 11 जून, 2007 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक उक्त ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्त किया गया है।

श्रीमती एग्नेस मोमीन जार्ज, निदेशक

दिनांक 12 जून 2007

सं. आरएस./2144/स्था.(का.)--श्रीमती गायत्री कान्त, अवर सचिव के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु अनुरोध को स्वीकार किए जाने

के परिणामस्वरूप, वह 8 जून, 2007 के पूर्वाह्न से सेवा निवृत्त हो गईं।

श्रीमती एग्नेस मोमीन जार्ज, निदेशक

दिनांक 15 जून 2007

सं. आरएस./3(i)/2007/50-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में वरिष्ठ विधायी/समिति/अधिशाली/नयाचार सहायक श्रीमती रीता साहनी को 15 जून, 2007 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में तदर्थ आधार पर विधायी/समिति/अधिशाली/नयाचार अधिकारी के ग्रेड में नियुक्त किया है।

2. श्री मोहम्मद सलामुद्दीन, जिन्हें पहले दिनांक 19 फरवरी, 2007 की अधिसूचना सं. आरएस./3(i)/2007/18-कार्मिक द्वारा तदर्थ आधार पर विधायी/समिति/अधिशाली/नयाचार अधिकारी के रूप में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया था, को अब 15 जून, 2007 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक उक्त ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्त किया गया है।

3. उपर्युक्त नियुक्तियाँ रिट याचिका सं. 3025/88 के अंतिम निपटारे के समय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों के अधधीन होंगी।

श्रीमती एग्नेस मोमीन जार्ज, निदेशक

सं. आरएस./3(i)/2007/49-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में विधायी/समिति/अधिशाली/न्यायाचार अधिकारी श्रीमती प्रकाश मुंजाल को 15 जून, 2007 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में नियमित आधार पर अवर सचिव के ग्रेड में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

2. उपर्युक्त नियुक्ति रिट याचिका सं. 3025/88 के अंतिम निपटारे के समय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों के अधधीन होंगी।

श्रीमती एग्नेस मोमीन जार्ज, निदेशक

मंत्रिमंडल सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 जून 2007

सं. ए-19011/01/2007-प्रशा.-1--राष्ट्रपति, श्री के. एम. चन्द्रशेखर, भा.प्र.से. (केरल : 70) को 14 जून, 2007 से दो वर्षों की अवधि के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय में मंत्रिमंडल सचिव तथा सचिव, मंत्रिपरिषद्, भारत सरकार के रूप में नियुक्त करते हैं।

आर. कृष्णामूर्ति, अवर सचिव

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 24 मई 2007

सं. ए-11011/2/2005-प्रशासन--राष्ट्रपति, श्री रवि शास्त्री, निदेशक, एन.एस.सी.एस. को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में संयुक्त सचिव के पद पर दिनांक 24 मई, 2007 के पूर्वाह्न से अगले आदेश के जारी होने तक, नियुक्त करते हैं।

जी. राजीव, अवर सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 17 मई 2007

सं. ए-43014/03/2006-प्रशा.-II--वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले विभाग के आदेश सं. 11016/3/2007-आईईएस दिनांक 16.05.2007 के तहत, श्री पिल्लू राम मीणा को, भारतीय आर्थिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (जेएजी) में उनकी पदोन्नति होने के फलस्वरूप दिनांक 17 मई, 2007 की अपराह्न से योजना आयोग में वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के पद से कार्यभार-मुक्त किया जाता है।

एन. के. शर्मा, अवर सचिव

सं. ए-43014/03/2006-प्रशा.-II--वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले विभाग के आदेश सं. 11016/3/2007-आईईएस दिनांक 16.05.2007 के

तहत, श्री आर. पी. मिश्रा को, भारतीय आर्थिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (जेएजी) में उनकी पदोन्नति होने के फलस्वरूप दिनांक 17 मई, 2007 की अपराह्न से योजना आयोग में वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के पद से कार्यभार-मुक्त किया जाता है।

एन. के. शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 22 मई 2007

सं. ए-43014/03/2006-प्रशा.-II--वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले विभाग के आदेश सं. 11016/3/2007-आईईएस दिनांक 16 मई 2007 के तहत उनके एस टी एस स्तर में भारतीय आर्थिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (जेएजी) पर नियमित पदोन्नति के फलस्वरूप, कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (योजना आयोग) के उल्लिखित क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों के नाम के समक्ष इंगित दिनांक से वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के पद से कार्यमुक्त किए जाते हैं :--

क्रम सं.	अधिकारियों का नाम	क्षेत्रीय परियोजना कार्यालय	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1.	श्री एन. श्रीनिवास राव	क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, हैदराबाद	22.05.2007 (अपराह्न)
2.	श्री एन्दोनी सिल्वेस	परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, बैंगलोर	22.05.2007 (अपराह्न)
3.	श्री पी. के. अय्यनगरम	परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, तिरुवनंतपुरम	22.05.2007 (अपराह्न)

एन. के. शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 6 जून 2007

सं. ए-19(1).2006-प्रशा.-II--योजना आयोग की दिनांक 06.06.2007 की समसंख्यक अधिसूचना के अधिक्रमण में, श्री ए. के. भाटिया, अनुसंधान अधिकारी (भारतीय आर्थिक सेवा के ग्रेड-IV) की सेवाएं दिनांक 6 जून 2007 के अपराह्न से आर्थिक मामले विभाग (आईईएस प्रभाग), वित्त मंत्रालय को सौंपी जाती हैं।

एन. के. शर्मा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 1 जून 2007

सं. एफ.6(2018) 2007-प्रशासन-1--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25.05.2007 के आदेश सं. 7/2/2007-ई.ओ.(एस.एम.1) के तहत सूचित, श्री राजेंद्र हल्दिदया, आई.ए.एस. (राजस्थान : 73) की योजना आयोग में उपाध्यक्ष के सलाहकार के पद पर (अपने रैंक व वेतन पर) दिनांक 1 जून 2007 के पूर्वाह्न से उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, उनकी नियुक्ति के लिए मंत्रिमंडल नियुक्ति समिति के अनुमोदन का अनुपालन करते हुए श्री हल्दिदया ने दिनांक 01.06.2007 (पूर्वाह्न) से उक्त पद का पदभार संभाल लिया है।

के. के. छाबड़ा, अवर सचिव

दिनांक 13 जून 2007

सं. ए-43011/23/2004-प्रशासन-1-मंत्रिमंडल सचिवालय के दिनांक 13 जून, 2007 के पत्राचार सं. 1-1/2007-सी.एस.(ए) का अनुपालन करते हुए, एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि, योजना आयोग के सदस्यों के लिए लागू सामान्य शर्तों पर श्री बी. के. चतुर्वेदी, आई.ए.एस. (यू.पी. : 66), वर्तमान मंत्रिमंडल सचिव की दिनांक 14 जून, 2007 से योजना आयोग में सदस्य के रूप में नियुक्ति को सक्षम अधिकारी ने अनुमोदन प्रदान किया है।

के. के. छाबड़ा, अवर सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 11 जून 2007

सं. ए-32013/3/2005-प्रशा.-I(वि.वि.)-राष्ट्रपति, श्री एम. डी. सिद्दिकी, सहायक विधायी परामर्शी (उर्दू) को रुपये 12,000-375-16,500/- के वेतनमान में राजभाषा खण्ड, विधायी विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय में तदर्थ आधार पर दिनांक 11 जून, 2007 की पूर्वाह्न से तीन माह की अवधि के लिए या जब तक रिक्ति उपलब्ध हो, इनमें से जो भी पहले हो, स्थानापन्न रूप से उप विधायी परामर्शी (प्रादेशिक भाषा शाखा) के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ नियुक्ति उन्हें उप विधायी परामर्शी (प्रादेशिक भाषा शाखा) के ग्रेड में नियमित नियुक्ति के लिए न तो कोई अधिकार प्रदान करेगी और न ही इस रूप में उनके द्वारा प्रदत्त सेवाओं को उच्चतर ग्रेड में वरिष्ठता के प्रयोजनार्थ गिना जाएगा।

के. श्रीमन्नारायण, सहायक विधायी परामर्शी (प्रशा.)

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 मई 2007

सं. ए-12023/14/1996-प्रशा. III(वि.का.)-62 वर्ष के होने पर, आयकर अपील अधिकरण के लेखा सदस्य श्री एस. पी. तिवारी, आयकर अपील अधिकरण (सदस्यों की भर्ती एवं सेवा शर्तों) नियम, 1963 के नियम 11 के अनुसार दिनांक 16 मई, 2007 के अपराह्न से अधिवर्षिता पर सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

के. डी. सिंह, अवर सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 6 जून 2007

सं. 14016/17/2006-यूटीएस-II-संयुक्त सचिव (संघ शासित क्षेत्र), गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमण एवं दीव और दादरा एवं नगर हवेली (पुलिस सेवा) नियम, 2003, के नियम 10 के उप नियम (1) के साथ पठित नियम 7 के उप नियम (2) के खंड (ग) के अन्तर्गत दिल्ली पुलिस के निम्नलिखित निरीक्षकों को तत्काल प्रभाव से दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर

6,500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमण एवं दीव और दादरा एवं नगर हवेली पुलिस सेवा के प्रविष्टि ग्रेड में नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	रैंज सं.	जन्म की तारीख
सर्वश्री			
1.	ईश्वर सिंह	डी-I/623	10.11.1948
2.	सुभाष गौतम	डी-I/625	09.11.1948
3.	अमीन सिंह	डी-I/626	30.06.1947
4.	दया नंद	डी-I/535	04.06.1948
5.	कैलाश चन्द	डी-I/292	01.12.1949
6.	बनवारी लाल	डी-I/584	06.09.1948

2. उपर्युक्त नियुक्ति श्री जगदीश चन्द बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में दायर रिट याचिका (सी) सं. 4210/2007 के निर्णय के अधधीन है।

रजनीश तिगल, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 12 जून 2007

सं. I-14012/13/2002-आई.पी.एस.-IV-राष्ट्रपति, सिविल सेवा परीक्षा, 2001 के आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थी को उसके नाम के सामने दी गई तारीख से भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 6 के अन्तर्गत भारतीय पुलिस सेवा में परीक्षा पर नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	परीवीक्षाधीन आईपीएस का नाम	जन्म तिथि	भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्ति की तारीख
1.	श्री प्रदीप कुमार यादव	07.06.1977	21.12.2006 (पूर्वाह्न)

2. श्री प्रदीप कुमार यादव की भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्ति अनन्तिम और संबंधित प्राधिकारियों से उनके चरित्र एवं पूर्ववृत्त के संबंध में आवश्यक सत्यापन के अधधीन है।

रंजनेश सहाय, निदेशक (पु. वि.)

सं. I-14012/9/2005-आई.पी.एस.-IV-राष्ट्रपति, सिविल सेवा परीक्षा, 2004 के आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सामने दी गई तारीख से भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 6 के अन्तर्गत भारतीय पुलिस सेवा में परीक्षा पर नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	परीवीक्षाधीन आईपीएस का नाम	जन्म तिथि	भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्ति की तारीख
सर्वश्री			
1.	दरदे संजय भास्कर	01.06.1980	28.08.2006 (पूर्वाह्न)
2.	वी. शिवा प्रसाद गंजाला	22.08.1977	18.12.2006 (पूर्वाह्न)

2. उपर्युक्त अभ्यर्थियों की भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्ति अन्तिम और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से उनके चरित्र एवं पूर्ववृत्त के संबंध में आवश्यक अनापत्ति के अध्यक्षीन है।

रंजनेश सहाय, निदेशक (पु. वि.)

नई दिल्ली, दिनांक 12 जून 2007

सं. 20/जी/2602-प्रशा.1--राष्ट्रपति, खेद के साथ यह सूचित करते हैं कि गृह मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अनुभाग अधिकारी श्री शरत चन्द्र दास का दिनांक 14.05.2007 को निधन हो गया है।

जे. बी. शर्मा, अवर सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 जून 2007

सं. ए-32013/1/2007-प्रशासन-I(राजपत्रित)--वर्ष 2002 हेतु निदेशकों की उपयुक्तता सूची में उनका नाम शामिल कर लिए जाने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति, के.स.से. के चयन ग्रेड अधिकारी श्री एन. के. पुष्पाकरन को दिनांक 28 अप्रैल, 2007 के पूर्वाह्न से 30 अप्रैल, 2007 अर्थात् उनकी अधिवर्षिता की तारीख तक कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में 14,300-400-18,300/- रुपये के वेतनमान में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. के. वेलुकुट्टी, अवर सचिव

सं. ए-32013/2/2007-प्रशा.-I(जी.)--राष्ट्रपति, वाणिज्य विभाग संवर्ग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के स्थायी अनुभाग अधिकारी श्री जी. राजीव को दिनांक 27 अप्रैल, 2007 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में तदर्थ आधार पर अवर सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. तदर्थ पदोन्नति से ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल होने या ग्रेड-I में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं मिलेगा।

वी. के. वेलुकुट्टी, अवर सचिव

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 9 मार्च 2007

सं. 31 : (फा. सं. ए.-19012/3/2007-प्रशासन-1)--भारत के राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के श्री रवीश स्नेहवाल, ग्रेड-1 अधिकारी (अवर सचिव) को दिनांक 01.03.2007 (पूर्वाह्न) से और अगले आदेश तक, पूर्णतया तदर्थ आधार पर राजस्व विभाग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड (उप सचिव) में नियुक्त करते हैं।

श्यामला मोहन, अवर सचिव

दिनांक 24 अप्रैल 2007

सं. 45 : (फा. सं. ए.-19013/12/2007-प्रशासन-1)--भारत के राष्ट्रपति, श्री नयनीत मनोहर, भारतीय राजस्व सेवा (आयकर : 99017) को दिनांक 12.04.2007 (पूर्वाह्न) से तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, राजस्व विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में अवर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

श्यामला मोहन, अवर सचिव

दिनांक 25 अप्रैल 2007

सं. 46 : (फा. सं. ए.-19012/9/2007-प्रशासन-1)--भारत के राष्ट्रपति, श्री सुधीर कुमार त्यागी, भारतीय रेल यातायात सेवा (89) को दिनांक 23.04.2007 (पूर्वाह्न) से पांच वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, राजस्व विभाग में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

श्यामला मोहन, अवर सचिव

दिनांक 30 अप्रैल 2007

सं. 47 : (फा. सं. ए.-19014/3/2007-प्रशासन-1)--इस विभाग की दिनांक 28.03.2007 की अधिसूचना सं. 35 का अधिक्रमण करते हुए, राष्ट्रपति केन्द्रीय सचिवालय सेवा के राजस्व विभाग में वैयक्तिक सहायक श्री ए. नारायणस्वामी को संयुक्त सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2004 उत्तीर्ण करने के आधार पर दिनांक 19.01.2007 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश तक, राजस्व विभाग में अनुभाग अधिकारी (चयन सूची/2004) के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में श्री एस. नारायणस्वामी को नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष श्री कैलाश चन्द्र एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य द्वारा दायर की गई रिट याचिका के निष्पत्ति के अध्यक्षीन होगी।

श्यामला मोहन, अवर सचिव

दिनांक 3 मई 2007

सं. 48 : (फा. सं. ए.-19013/13/2007-प्रशासन-1)--भारत के राष्ट्रपति, सुश्री अशीषा केर, भारतीय राजस्व सेवा (आयकर : 99) को दिनांक 24.04.2007 (पूर्वाह्न) से तीन वर्षों की अवधि के लिए और अगले आदेश तक, राजस्व विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में अवर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

श्यामला मोहन, अवर सचिव

सं. 49 : (फा. सं. ए.-19013/2/2007-प्रशासन-1)--राजस्व विभाग में अनुभाग अधिकारी के रूप में तैनात केन्द्रीय सचिवालय सेवा की अधिकारी श्रीनर्त लक्ष्मी गंगालिया अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 30 अप्रैल, 2007 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से निवृत्त हो गई हैं।

श्यामला मोहन, अवर सचिव

सं. 50 : (फा. सं. ए.-38013/2/2007-प्रशासन-1)--राजस्व विभाग में अनुभाग अधिकारी के रूप में तैनात केन्द्रीय सचिवालय सेवा की अधिकारी श्री मदन लाल, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48 के अधीन दिनांक 18 अप्रैल, 2007 (पूर्वाह्न) को सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

श्यामला मोहन, अवर सचिव

सं. 51 : (फा. सं. ए.-19011/10/2006-प्रशासन-1)--राजस्व विभाग, केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो में महानिदेशक के रूप में तैनात भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क : 1970) के अधिकारी श्री एस. पी. एस. पुन्डीर अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 30 अप्रैल, 2007 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

श्यामला मोहन, अवर सचिव

दिनांक 4 मई 2007

सं. 52 : (फा. सं. ए.-19012/8/2007-प्रशासन-1)--भारत के राष्ट्रपति, श्री संजीव श्रीवास्तव, भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क : 91) को दिनांक 30.04.2007 (पूर्वाह्न) से अथवा अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, राजस्व विभाग में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

श्यामला मोहन, अवर सचिव

सं. 53 : (फा. सं. ए.-19012/13/2002-प्रशासन-1)--भारत के राष्ट्रपति, राजस्व विभाग में श्री एन. एम. कृष्ण, उप सचिव (के.स.से.) को दिनांक 30.04.2007 (पूर्वाह्न) से अथवा अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, इस विभाग में 14,300-400-18,300/- रुपये के वेतनमान में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

श्यामला मोहन, अवर सचिव

दिनांक 7 मई 2007

शुद्धिपत्र

इस विभाग की दिनांक 23 मार्च 2007 की अधिसूचना सं. 32 (फा. सं. ए.19012/4/2007-प्रशासन-1) में आंशिक संशोधन करते हुए इस विभाग में निदेशक के रूप में श्री डी. श्रीनिवास, भारतीय राजस्व सेवा (आयकर : 92) की कार्यग्रहण करने की तारीख 19.03.2007 (अपराह्न) को "19.03.2007" (पूर्वाह्न) पढ़ा जाए।

श्यामला मोहन, अवर सचिव

(आर्थिक कार्य विभाग)

बैंकिंग प्रभाग

नई दिल्ली, दिनांक 25 मई 2007

सं. ए-12026/2/2006-डीआरटी--केन्द्रीय सरकार, श्री हनुमान शरण शर्मा, विधि रचना अधिकारी, विधि एवं कानूनी मामले विभाग, राजस्थान
2-12261/07

सरकार, जयपुर को 11.5.2007 (पूर्वाह्न) से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में, प्रतिनियुक्ति आधार पर, ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर, में सचिव/रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त करती है।

ए. थॉमस, अवर सचिव

सं. ए-12026/3/2005-डीआरटी--केन्द्रीय सरकार, श्रीमती मैरी जेकब, अवर सचिव, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग), नई दिल्ली को 23.4.2007 (पूर्वाह्न) से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में, प्रतिनियुक्ति आधार पर, ऋण वसूली अधिकरण, बैंगलूर, में वसूली अधिकारी के पद पर नियुक्त करती है।

ए. थॉमस, अवर सचिव

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन और पेट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 11 जून 2007

सं. ए-19011/6/2007-स्थापना--राष्ट्रपति, श्री अरुण रामानाथन, भा. प्र. से. (तमिलनाडु : 73) को 11 जून 2007 के अपराह्न से रसायन और पेट्रोरसायन विभाग का सचिव नियुक्त करते हैं।

यशवीर सिंह, उप सचिव

(उर्वरक विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 मई 2007

सं. ए-12011/18/2006-मा.सं.-II--राष्ट्रपति, श्री मनोज कुमार गुप्ता, आई.आर.एस. को भारत सरकार के सेंट्रल स्ट्रकिंग स्कीम के तहत 21 मई, 2007 (अवकाश दिवस होने के कारण 19 और 20 मई, 2007 पहले को जोड़कर) से 5 वर्षों या अगले आदेश होने, जो भी पहले हो, तक उर्वरक विभाग में निदेशक नियुक्त करते हैं।

2. उनका पद नाम निदेशक (पीएसयू) होगा।

3. हिन्दी अनुवाद भेजा जा रहा है।

हरिपाल, अवर सचिव

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

(लोक उद्यम विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 7 जून 2007

सं. ए-32013/1/2005-प्रशासन--राष्ट्रपति ने श्री एम. पी. फुलझेले की संयुक्त निदेशक के रूप में तदर्थ नियुक्ति को लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में 16.5.2007 से 6 माह की और अधिक

अवधि अथवा इस पद को नियमित आधार पर भरे जाने, अथवा अगला आदेश जारी किए जाने, इनमें से जो भी शीघ्रतम है, तक बढ़ा दिया है।

डी. द्वारकानाथ, अवर सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 जून 2007

सं. ए-12011/4/2000-प्रशासन--राष्ट्रपति, वायदा बाजार आयोग (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उपधारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए श्री बी. सी. खटुआ, भारतीय प्रशासनिक सेवा (महाराष्ट्र : 76) को 31 मई, 2007 के अपराह्न से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के सामान्य कार्यकाल या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, 22,400-525-24,500/- रुपए के वेतनमान में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग के तहत वायदा बाजार आयोग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त करते हैं।

एस. के. नायक, उप सचिव

सं. ए-12011/15/2006-प्रशासन--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 4 जून, 2007 के आदेश संख्या 4/9/2006-सी.एस.-I के अनुसरण में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अवर सचिव श्री ए. के. गांगुली को 5 जून, 2007 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक उपभोक्ता मामले विभाग में 12,000-375-16,500/- रुपए के वेतनमान में तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के उप सचिव (चयन ग्रेड) के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. इस तदर्थ प्रोन्नति से श्री गांगुली को अनिश्चित काल के लिए ग्रेड में बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल किए जाने या चयन ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

एस. के. नायक, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 18 जून 2007

सं. ए-11011/03/04-प्रशासन (वो.-II)--राष्ट्रपति, श्री सुरेश आर. नायर, वसूली निरीक्षक, मुंबई ऋण वसूली ट्रिब्यूनल को दिनांक 25 मई, 2007 के पूर्वाह्न से एक वर्ष की अवधि या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, वायदा बाजार आयोग, मुंबई में प्रतिनियुक्ति आधार पर 8,000-275-13,500/- रुपए के वेतनमान में सहायक निदेशक (विधि) के पद पर नियुक्त करते हैं।

केवल कृष्ण, अवर सचिव

सं. ए-11011/03/04-प्रशासन (वो.-II)--राष्ट्रपति, श्री संजय चड्ढा, सहायक प्रवर्तन अधिकारी, प्रवर्तन निदेशालय, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, मुंबई को दिनांक 15 मई, 2007 के अपराह्न से एक वर्ष की अवधि या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, वायदा बाजार आयोग, मुंबई में प्रतिनियुक्ति आधार पर 8,000-275-13,500/- रुपए के वेतनमान में सहायक निदेशक (विधि) के पद पर नियुक्त करते हैं।

केवल कृष्ण, अवर सचिव

सं. ए-11011/03/04-प्रशासन (वो.-II)--राष्ट्रपति, श्री नीलम्बुज, कम्पनी प्रोसेक्यूटर ग्रेड-III कम्पनी पंजीयक का कार्यालय, मुंबई को दिनांक 18 मई, 2007 के पूर्वाह्न से एक वर्ष की अवधि या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, वायदा बाजार आयोग, मुंबई में प्रतिनियुक्ति आधार पर 8,000-275-13,500/- रुपए के वेतनमान में सहायक निदेशक (विधि) के पद पर नियुक्त करते हैं।

केवल कृष्ण, अवर सचिव

सं. ए-11011/03/04-प्रशासन (वो.-II)--राष्ट्रपति, श्री बी. एन. झा, सहायक निदेशक (एम. स्पाइस बोर्ड (क्षेत्रीय कार्यालय)), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, मुंबई को दिनांक 21 मई, 2007 के पूर्वाह्न से एक वर्ष की अवधि या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, वायदा बाजार आयोग, मुंबई में प्रतिनियुक्ति आधार पर 10,000-15,200/- रुपए के वेतनमान में उप निदेशक (लेखा-वित्त) के पद पर नियुक्त करते हैं।

केवल कृष्ण, अवर सचिव

(खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग)

वनस्पति वनस्पति तेल तथा वसा निदेशालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 23 मई 2007

सं. ए-12011/1-2005-स्था.-I--राष्ट्रपति वनस्पति, वनस्पति तेल तथा वसा निदेशालय में डा. ए. माधवन, विकास अधिकारी को उसी संगठन में 1.2.2007 से छह महीने की अवधि तक अथवा नियमित प्रत्याशी की नियुक्ति होने तक या अगले आदेशों तक जो भी इनमें से पहले हो रु. 8,000-275-13,500/- के वेतनमान में सहायक निदेशक के रूप में तदर्थ आधार पर नियुक्ति को आगे बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

एस. के. वधवा, उप निदेशक

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(बायोटेक्नोलॉजी विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 17 मई 2007

सं. ए-12011/05/2006-स्था.--राष्ट्रपति, इस विभाग के डा. एस. नटेश को 22,400-525-24,500/- रुपये के वेतनमान में प्रतिनियुक्ति के आधार पर 17 मई, 2007 के पूर्वाह्न के तत्काल प्रभाव से या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, दो वर्ष की अवधि के लिए बायोटेक्नोलॉजी विभाग में वैज्ञानिक "एच" के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एस. सी. अग्रवाल, अवर सचिव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 14 जून 2007

सं. ए-12012/14-2005-पी.II(.)--राष्ट्रपति, सुश्री कुसुम मिश्रा को 12,000-375-16,500/- रु. के वेतनमान में 18 मई, 2007 के अपराह्न से पर्यावरण और वन मंत्रालय में उप आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त करते हैं।

रती राम, उप सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 31 मई 2007

सं. 38012/06/2007-स्थापना-I--श्री पी. के. जलाली, संयुक्त सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग सेवानिवृत्ति की आयु पूरी करने पर 31 मई, 2007 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होंगे।

पी. विजय कुमार, अवर सचिव

दिनांक 1 जून 2007

सं. 27-2725/2007-स्था.-I--राष्ट्रपति, के. नारायण कुमार, भा. प्र. सेवा (एएम : 87) को कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग में दिनांक 1 जून, 2007 के पूर्वाह्न से 18,400--22,400/- रुपए के वेतनमान में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

पी. विजय कुमार, अवर सचिव

पंचायती राज मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 जून 2007

सं. ए-19012/2/005-स्थापना-I--राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नियोजन बोर्ड, शहरी विकास मंत्रालय में सदस्य सचिव के रूप में नियुक्ति हो जाने के परिणामस्वरूप श्री पी. डी. सुधाकर, आई ए एस (उ. प्र. : 76) (प्रतिक्षारत) ने दिनांक 14 जून, 2007 के पूर्वाह्न से पंचायती राज मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद का कार्यभार त्याग दिया है।

के. पी. सरोहा, अवर सचिव

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

नई दिल्ली-1, दिनांक 06 जून 2007

सं. 13015/1/2005-एस.सी.डी.-6--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में निदेशक (समूह 'क' राजपत्रित गैर-अनुसूचितों) को 12,000-375-16,500 रुपए के वेतनमान में उनके नाम के सामने दर्शायी गई तारीख से 4 वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	नाम	नियुक्ति की तारीख	तैनाती का स्थान
1.	श्री वी. इलिशा, निदेशक	02.04.2007 (पूर्वाह्न)	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, हैदराबाद।
2.	श्री आर. डी. चन्द्रहास, निदेशक	13.04.2007 (पूर्वाह्न)	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, लखनऊ।
3.	डा. वीरेन्द्र कुमार राठी, निदेशक	01.05.2007 (पूर्वाह्न)	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली।

आर. एस. मीना, निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 15 जून 2007

सं. 17015/21/2004-आर.आई.सैल--केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के बारे में संकल्प (10.9.2004 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित) के पैरा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री मांगीलाल आर्य को दिनांक 8.6.2007 (अपराह्न) से आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त करते हैं।

डी. वी. एस. रंगा, संयुक्त सचिव

जनजातीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 01 जून 2007

सं. 19011/22/2005-स्था.--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30.05.2007 के आदेश सं. 2/2/2007-ई.ओ. (एस.एम.-I) के अनुसरण में, राष्ट्रपति, जनजातीय कार्य मंत्रालय की सचिव सुश्री मीना गुप्ता, भारतीय प्रशासनिक सेवा (उड़ीसा : 71) को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में सचिव के रूप में अपना नया कार्यभार ग्रहण करने के लिए 1 जून, 2007 के पूर्वाह्न से कार्यमुक्त करते हैं।

अनिल काकरिया, अवर सचिव

संचार व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 12 जून 2007

सं. ए-12026/1/2005-प्रशासन-II--राष्ट्रपति, कृषि मंत्रालय एवं सहकारिता विभाग में अवर सचिव, डा. विंसेंट बारला को दूरसंचार विभाग में रुपये 12,000-375-16,500/- के वेतनमान वाले, केन्द्रीय सामान्य सेवा वर्ग 'क' में सम्मिलित निदेशक (कर्मचारी वृन्द संबंध) के पद पर दिनांक 4.6.2007 पूर्वाह्न से चार वर्ष की अवधि के लिए तथा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, प्रतिनियुक्ति आधार पर, सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. उक्त पद पर डा. बारला की नियुक्ति वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में, समय-समय पर संशोधित, दिनांक 7 नवम्बर 1975 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ-1(II)ई-III (बी)75 में निहित अनुबंध एवं शर्तों पर निर्धारित की जाएगी।

पी. के. रघुराम, अवर सचिव

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र

नई दिल्ली-110003, दिनांक 8 जून 2007

सं. 4506/एनआईसी/2006-का. व स्था.-II--राष्ट्रपति, एतद्द्वारा सुश्री वी. पद्मावती (कर्मचारी कोड सं. 4506) का राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, आन्ध्र प्रदेश राज्य एकक, हैदराबाद से वैज्ञानिक "बी" के पद से त्यागपत्र दिनांक 09 मार्च, 2007 की अपराह्न से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है। दिनांक 22.01.2007 से 09.03.2007 से उनकी अनुपस्थिति को अकार्य दिवस माना जायेगा।

आर. एम. नायर, उप निदेशक
(कार्मिक व स्थापना-II)

(डाक विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 31 मई 2007

विषय : सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' में निजी सचिव (राजपत्रित) के पद पर पदोन्नति एवं तैनाती।

सं. 10-5/2006-एसपीजी--महानिदेशक डाक सहर्ष सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ख', में निम्नलिखित कर्मचारियों को निजी सचिव (राजपत्रित) के ग्रेड में नियमित आधार पर कार्य करने के लिए 6,500-200-10,500/- रुपए के वेतनमान में प्रभार ग्रहण करने की तारीख से और अगले आदेशों तक के लिए नियुक्त करते हैं।

2. निजी सचिव के ग्रेड में पदोन्नत कर्मचारी प्रत्येक के समक्ष दिए सर्किल में तैनात किए जाते हैं :--

क्रम सं.	कर्मचारी का नाम	वह सर्किल जहां फिलहाल कार्य करते हैं	वह सर्किल जहां पदोन्नति के बाद तैनात किए गए हैं
1	2	3	4
	सर्वश्री		
1.	वीना कपूर	दिल्ली	व्यवसाय विकास निदेशालय, दिल्ली
2.	वी. एस. राव	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश
3.	एन. डी. अरोड़ा	दिल्ली	पोस्टल स्टाफ कालेज, गाजियाबाद
4.	श्रीमती गुरभीत कौर (अ. जा.)	दिल्ली	पंजाब
5.	अरविन्द प्रसाद सिन्हा	बिहार	उत्तर प्रदेश
6.	त्रिभुवन नाथ प्रसाद	बिहार	उत्तर प्रदेश
7.	श्रीमती बिबा घोष (अ. जा.)	असम	पश्चिम बंगाल
8.	एन. सी. दास (अ. जा.)	असम	राजस्थान
9.	जी. पी. वर्मा (अ. जा.)	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश
10.	सुकुमार सूर	उत्तर-पूर्व	उड़ीसा
11.	लतिका नायर	मध्य प्रदेश	केरल
12.	विमला गुरुस्वामी	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र
13.	वी. एस. काब्बे	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र
14.	के. के. महापात्र	उड़ीसा	उड़ीसा
15.	पी. सी. बोस	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल
16.	ए. के. हवलदार	पश्चिम बंगाल	छत्तीसगढ़

3. सतर्कता/अनुशासनिक मामला, यदि कोई हो

इस कार्यालय के का. ज्ञा. सं. 25-19/88-एसपीजी दिनांक 04.05.88 के साथ परिचालित कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का. ज्ञा. सं.

22011/2/86-स्था.(ए) दिनांक 12.01.88 (तदुपरांत) जिसमें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के ज्ञापन सं. 22022/4/91-स्था.(ए) दिनांक 14.9.92 द्वारा संशोधन किया गया व जिसे इस कार्यालय के ज्ञापन सं. 25-29/88-एस पी जी दिनांक 13.10.92 के साथ परिचालित किया गया था, उसमें उल्लिखित किस्म का कोई सतर्कता/अनुशासनिक मामला यदि कर्मचारियों के खिलाफ लंबित है, तो उसे इस कार्यालय से विशिष्ट आदेश प्राप्त किए बिना तैनाती के लिए कार्यमुक्त नहीं किया जाना चाहिए। वे कर्मचारी जिनके विरुद्ध कोई दण्ड प्रवर्तित है, उन्हें दण्ड की मियाद के समाप्त होने से पूर्व पदोन्नति नहीं दी जानी चाहिए। इस संबंध में एक रिपोर्ट तत्काल भेजी जाए।

4. वेतन निर्धारण के लिए विकल्प

अधिकारी यदि एफ अर-22 (1)(क)(1) के अंतर्गत वेतन निर्धारण के लिए तारीख चुनने के लिए विकल्प देना चाहते हैं, तो उन्हें पदोन्नति की तारीख से एक माह के अंदर विकल्प देना होगा।

5. अपने मूल सर्किलों से बाहर आबंटित अधिकारी

जो कर्मचारी निजी सचिव के ग्रेड में पदोन्नत होने पर अपने सर्किल से बाहर तैनात किए गए हैं, वे जिस सर्किल में उन्हें तैनात किया गया है, वहां से तैनाती आदेश जो कि आदेश की तारीख से एक महीने तक जारी कर दिया जाएगा, की प्राप्ति पर संबंधित सर्किल के सर्किल अध्यक्ष के पास रिपोर्ट करेंगे।

6. संगत कार्य-भार ग्रहण रिपोर्ट कृपया इस कार्यालय को यथासमय भेज दी जाए।

श्री पी. पंत, सहायक महानिदेशक (एस जी पी)

दिनांक 06 जून 2007

संदर्भ अधिसूचना संख्या 12-3/2002-एसपीजी--दिनांक 24.5.2007, श्रीमती सी. डी. मन्निन ने डाक विभाग में जीसीएस समूह क में 12,000-375 16,500/- रु. के वेतनमान में संयुक्त निदेशक (राजभाषा) के रूप में पूर्णतया अस्थायी और तदर्थ आधार पर 08.05.2007 (पूर्वाह्न) को पदभार ग्रहण कर लिया है।

श्री पी. पंत, सहायक महानिदेशक (प्रशासन)

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 08 जून 2007

सं. ई(जी.पी.)/2006-1/58--राष्ट्रपति महोदय, भारतीय रेलों के यातायात विभाग के निम्नलिखित 22 गुप-बी अधिकारियों की, उल्लिखित रेलों पर 16.4.2007 में भारतीय रेल यातायात सेवा (आई.आर.टी.एस.) के कनिष्ठ वेतनमान में नियुक्ति किए जाने का अनुमोदन करते हैं :--

2005-06 के लिए वेतन

क्रम सं.	अधिकारियों का नाम
	सर्व श्री

पूर्व मध्य रेलवे

1. के. एस. रम
2. बी. एन. म. रम

क्रम सं.	अधिकारियों का नाम
	सर्व श्री
उत्तर रेलवे	
1.	पी. के. वार्शणे
2.	जी. एन. शर्मा
दक्षिण रेलवे	
1.	ए. पी. मुथुरामलींगम
2.	पी. ब्राइट सैमुअल
दक्षिण पश्चिम रेलवे	
1.	एस. टी. बस्ती
पश्चिम रेलवे	
1.	चंद्रमोहन
2.	अश्विनी जे. शर्मा
3.	कमलेश तिवारी
4.	टी. विश्वनाथन
5.	एन. के. साल्वे (अ.जा.)
2006.07 के लिए पैनल	
पूर्व तट रेलवे	
1.	पी. एस. आर. अंजानुइलु
उत्तर रेलवे	
1.	ए. के. गुप्ता
दक्षिण रेलवे	
1.	डी. दुर्गा प्रसाद
2.	आर. रघुरमन
दक्षिण पश्चिम रेलवे	
1.	टी. राघवन (अ.जा.)
पश्चिम रेलवे	
1.	आर. के. पुंडीर
2.	पी. डी. भुषण
3.	जे. सी. बिर्दी (अ.जा.)
4.	एम. के. वर्मा
5.	सी. पी. वर्मा

मैथ्यू जॉन, सचिव/रेलवे बोर्ड

दिनांक 13 जून 2007

सं. ई आर बी-I/2007/10/4--रेलवे बोर्ड के निम्नलिखित अधिकारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 30.4.2007 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं :--

(i) श्री आर. रमेश अपर सदस्य (रेल भंडार)

(ii) श्री एच. आर. मल्होत्रा अनुभाग अधिकारी

मैथ्यू जॉन, सचिव/रेलवे बोर्ड

सं. ई आर बी-I/2007/10/4--श्री आर. शिवदासन, वित्त आयुक्त, रेल एवं रेल मंत्रालय में भारत सरकार के पदेन सचिव अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 31.5.2007 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

मैथ्यू जॉन, सचिव/रेलवे बोर्ड

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 5 जून 2007

सं. 7/4/2006-सीजीडब्ल्यूबी--राष्ट्रपति, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड में अधीक्षण जल भूविज्ञानी श्री डी. एस. सी. धम्बी को 1.1.2007 के पूर्वाह्न से 14,300-400-18,300/- रुपये के वेतनमान में पदोन्नति पर क्षेत्रीय निदेशक (समूह 'क' पद) के पद पर नियुक्त करते हैं।

सोहन एस. सैनी, अवर सचिव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 जून 2007

सं. पी. एफ. 2606/भा. सू. से.--सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी श्री नईम गुलशन रैना को 28 मई, 2007 की पूर्वाह्न से 6,500-200-10,500/- रु. के वेतनमान में भारतीय सूचना सेवा, समूह 'ख' (राजपत्रित) के वरिष्ठ ग्रेड में नियुक्त करते हैं।

2. श्री रैना भारतीय सूचना सेवा, समूह 'ख' के वरिष्ठ ग्रेड में अपनी नियुक्ति की तारीख से 2 वर्षों की अवधि के लिए परीक्षा अवधि पर रहेंगे।

अमृत लाल, अवर सचिव

श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 जून 2007

सं. ए-32012/12/2006-आई एस एच-II--राष्ट्रपति, श्री के. सी. एस. राव को 26.04.2007 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय, मुम्बई में निदेशक (सुरक्षा) के पद पर नियुक्त करते हैं।

एम. एस. आजाद, अवर सचिव

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110 001, the 11th June 2007

No. RS. 3 (xi)/2007/48-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Manoj Kumar, Translator in the Rajya Sabha Secretariat to officiate in the grade of Assistant Editor on ad hoc basis in that Secretariat with effect from the forenoon of 11th June, 2007, until further orders.

2. Shri Krishan Kumar Prajapat, who was earlier appointed to officiate as Assistant Editor on ad hoc basis vide Notification No. RS. 3 (xi)/2006/07-Perl. dated 12th January, 2007, has now been appointed on a regular basis in that grade with effect from the forenoon of 11th June, 2007, until further orders.

AGNES MOMIN GEORGE, Director

The 12th June 2007

No. RS/2144/Estt. (P).—Consequent upon the acceptance of her request for voluntary retirement, Smt. Gayatri Kanth, Under Secretary retired from service with effect from the forenoon of the 8th June, 2007.

AGNES MOMIN GEORGE, Director

The 15th June 2007

No. RS/3(i)/2007/50-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Smt. Rita Sahni, Senior Legislative/Committee/Executive/Protocol Assistant in the Rajya Sabha Secretariat to the grade of Legislative/Committee/Executive/Protocol Officer on ad hoc basis in that Secretariat, with effect from the forenoon of the 15th June, 2007, until further orders.

2. Shri Mohd. Salamuddin, who was earlier appointed to officiate as Legislative/Committee/Protocol Officer on ad hoc basis vide Notification No. RS/3(i)/2007/18-Perl. dated 19th February, 2007 has now been appointed on regular basis in that grade with effect from the forenoon of the 15th June, 2007, until further orders.

3. The above appointments would be subject to the orders of the Delhi High Court at the time of final disposal of Writ Petition No. 3025/88.

AGNES MOMIN GEORGE, Director

No. RS/3 (i)/2007/49-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Smt. Prakash Munjal, Legislative/Committee/Executive/Protocol Officer in the Rajya Sabha Secretariat to officiate in the grade of Under Secretary on regular basis in that Secretariat, with effect from the forenoon of the 15th June, 2007, until further orders.

2. The above appointment would be subject to the orders of the Delhi High Court at the time of final disposal of Writ Petition No. 3025/58.

AGNES MOMIN GEORGE, Director

CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 14th June 2007

No. A-19011/01-2007-Ad. I.—The President is pleased to appoint Shri K. M. Chandrasekhar, IAS (KL : 70) as Cabinet Secretariat & Secretary to the Council of Ministers, Government of India in the Cabinet Secretariat with effect from 14th June, 2007 for a period of two years.

K. KRISHNAMURTHY, Under Secy.

NATIONAL SECURITY COUNCIL SECRETARIAT

New Delhi-110 001, the 24th May 2007

No. 11011/2-2006-Ad.—The President is pleased to appoint Shri Ravi Shastri, Director, NSCS as Joint Secretary in the National Security Council Secretariat with effect from the forenoon of 24th May, 2007 until further orders.

G. RAJEEV, Under Secy.

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 17th May 2007

No. A-43014/03-2006-Adm. II.—Consequent on his promotion to the Junior Administrative Grade (JAG) of Indian Economic Service vide Ministry of Finance, Department of Economic Affairs Order No. 11016/3/2007-IES dated 16.05.2007, Shri Pillu Ram Meena is relieved from the post of Senior Research Officer in the Planning Commission with effect from the afternoon of 17th May, 2007.

N. K. SHARMA, Under Secy.

No. A-43014/03-2006-Adm. II.—Consequent on his promotion to the Junior Administrative Grade (JAG) of Indian Economic Service vide Ministry of Finance, Department of Economic Affairs Order No. 11016/3/2007-IES dated 16.05.2007, Shri R. P. Mishra is relieved from the post of Senior Research Officer in the Planning Commission with effect from the afternoon of 17th May, 2007.

N. K. SHARMA, Under Secy.

The 22nd May 2007

No. A-43014/03-2007-Adm. II.—Consequent upon their regular promotion from STS level to Junior Administrative Grade (JAG) of Indian Economic Service, vide Ministry of Finance, Department of Economic Affairs Order No. 11016/3/2007-IES dated 16th May, 2007, the following officers working in the field offices of Programme Evaluation Organisation (Planning Commission) mentioned against their names shall stand relieved from the post of Senior Research Officer with effect from the dates indicated against their respective names :

Sl. No.	Name of Officer	Regional/Project Office	Date of assumption of charge
	S/Shri		
1.	N. Srinivas Rao	Regional Evaluation Office, Hyderabad	22.05.2007 A. N.
2.	Antony Cyriac	Project Evaluation Office, Bangalore	25.05.2007 A. N.
3.	P. K. Abdul	Project Evaluation Office, Thiruvananthapuram	24.05.2007 A. N.

N. K. SHARMA, Under Secy.

The 6th June 2007

No. A-19(1)/2006-Admn. II.—In supersession of Planning Commission notification of even number dated 06.06.2007, the services of Shri A. K. Bhatia, Research Officer (Grade-IV of Indian Economic Service) are placed at the disposal of Department of Economic Affairs (IES Division), Ministry of Finance with effect from the afternoon of the 6th June, 2007.

N. K. SHARMA, Under Secy.

New Delhi, the 1st June 2007

No. F. 6 (2018)/2007-Adm. I.—In pursuance of ACC's approval communicated by the DoPT vide their Order No. 7/2/2007-EO (SM. I) dated 25.05.2007 to the appointment of Shri Gajendra Haldea, IAS (RJ : 73) as Adviser to Deputy Chairman, Planning Commission (in his present rank and pay) w.e.f. the forenoon of 1st June, 2007, till the date of his retirement or till further orders, whichever is earlier, Shri Haldea has assumed charge of the said post w.e.f. 01.06.2007 (F. N.).

K. N. CHHABRA, Under Secy.

The 13th June 2007

No. A-43011/23/2004-Adm. I.—In pursuance of the Cabinet Secretariat's communication No. 1-1/2007-CS(A) dated 13th June, 2007, it is hereby notified that the competent authority has approved the appointment of Shri B. K. Chaturvedi, IAS (UP : 66), presently Cabinet Secretary as Member of the Planning Commission w.e.f. 14th June, 2007 on the normal terms and conditions as applicable to Members of the Planning Commission.

K. K. CHHABRA, Under Secy.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, the 11th June 2007

No. A. 32013/3/2005-Admn. I (L. D.).—The President is pleased to appoint Shri M. K. Siddiqui, Assistant Legislative Counsel (Urdu) to officiate as Deputy Legislative Counsel (Regional Languages Branch) in the scale of pay of Rs. 12,000-375,16,500/- in the Official Languages Wing of the Legislative Department, Ministry of Law and Justice on ad hoc basis with effect from the forenoon of the 11th June, 2007 for a period of three months or till the vacancy is available, whichever is earlier.

2. This ad hoc appointment will neither bestow on him any claim whatsoever for regular appointment to the grade of Deputy Legislative Counsel (Regional Languages Branch) nor the services so rendered by him will count for the purpose of seniority in the higher grade.

K. SREEMANNARAYAN,
Asstt. Legislative Counsel (Admn.)

(DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)

New Delhi, the 16th May 2007

No. A-12023/14/1996-Admn. III (LA).—On attaining the age of 62 years, Shri S. C. Tiwari, Accountant Member, Income Tax Appellate Tribunal stands retired on superannuation from Government Service with effect from the afternoon of 16th May, 2007 in accordance with Rule 11 of the Income Tax Appellate Tribunal Members (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1963.

K. D. SINGH, Additional Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110 001, the 6th June 2007

No. 14016/17/2006-UTS-II.—Under Clause (C) of Sub-Rule (2) of Rule 7, read with Sub-Rule (1) of Rule 10 of the NCT of Delhi, Andaman and Nicobar Islands,

Lakshadweep, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli (Police Service) Rules, 2003, the Joint Secretary (Union Territories) in the Ministry of Home Affairs has appointed the following Inspectors of Delhi Police to the Entry Grade of NCT of Delhi, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli Police Service in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- on probation for a period of two years with immediate effect :—

Sl. No.	Name of the Officer	Range No.	Date of Birth
	S/Shri		
1.	Ishwar Singh	D-1/623	10.11.48
2.	Subhash Gautam	D-1/625	09.11.48
3.	Amin Singh	D-1/626	30.06.47
4.	Daya Nand	D-1/535	04.06.48
5.	Kailash Chand	D-1/292	01.12.49
6.	Banwari Lal	D-1/584	06.09.48

2. The said appointment is subject to the outcome of WP(C) No. 4210/2007 titled Shri Jagdish Chand Vs. Union of India & Others.

RAJNEESH TINGAL, Under Secy.

New Delhi, the 12th June 2007

No. I-14012/13/2002-IPS. IV.—Under Rule-6 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, the President is pleased to appoint the following candidate to the Indian Police Service on probation on the basis of the Civil Services Examination, 2001 with effect from the date mentioned against his name :—

Sl. No.	Name of the IPS Probationer	Date of Birth	Date of Appointment to the IPS
1.	Shri Pradeep Kumar Yadav	07.06.1977	21.12.2006 (FN)

2. The appointment of Shri Pradeep Kumar Yadav to the Indian Police Service is provisional and subject to necessary verification report with regard to his character and antecedents from the authorities concerned.

RANJANESH SAHAI, Director (PF)

No. I-14012/9/2005-IPS. IV.—Under Rule-6 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, the President is pleased to appoint the following candidates to the Indian Police Service on probation on the basis of

the Civil Services Examination, 2004 with effect from the date mentioned against his name :—

Sl. No.	Name of the IPS Probationer	Date of Birth	Date of Appointment to the IPS
1.	Shri Darade Sanjay Bhaskar	01.06.1980	29.08.2006 (FN)
2.	V. Siva Prasad Ganjala	22.08.1977	18.12.2006 (FN)

2. The appointment of the above mentioned candidates to the Indian Police Service is provisional and subject to necessary verification report with regard to their character and antecedents from the Department of Personnel and Training.

RANJANESH SAHAI, Director (PF)

New Delhi, the 12th June 2007

No. 20/G/2602-Ad. I.—The President regrets to announce the death of Sarat Chandra Das, a Section Officer of the Central Secretariat Service Cadre of Ministry of Home Affairs, New Delhi on 14.05.2007.

J. B. SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC
GRIEVANCES AND PENSIONS
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 12th June 2007

No. A. 32013-1/2007-Ad. I (G).—Consequent upon inclusion of his name in the Suitability List of Directors for the year 2002, the President is pleased to appoint Shri N. K. Pushpakaran, a Selection Grade Officer of CSS, as Director in the pay scale of Rs. 14,300-400-18,300/- in the Department of Personnel & Training with effect from the forenoon of 28th April, 2007 to 30th April, 2007 i.e. the date of his superannuation.

V. K. VELUKUTTY, Under Secy.

No. A. 32013-2/2007/Ad. I (G).—The President is pleased to appoint Shri G. Rajeev, a permanent Section Officer of CSS of the cadre of Department of Commerce, as Under Secretary on ad hoc basis, in Department of Personnel and Training with effect from the forenoon of 27th April, 2007 until further orders.

2. The ad hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade I. Ad hoc appointments may be

terminated at any point of time without giving any reason therefor.

V. K. VELUKUTTY, Under Secy.

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 9th March 2007

No. 31 : (F. No. A-19012/3/2007-Ad. I).—The President is pleased to appoint Shri Raveesh Sanewal, a Grade-I Officer (Under Secretary) of Central Secretariat Service, to the Selection Grade (Deputy Secretary) of Central Secretariat Service, in the Department of Revenue, purely on ad hoc basis w.e.f. 01.03.2007 (FN) and until further orders.

SHYAMALA MOHAN, Under Secy.

The 24th April 2007

No. 45 : (F. No. A-19013/12/2007-Ad. I).—The President is pleased to appoint Shri Navneet Manohar, IRS (IT : 99017) as Under Secretary in the Central Board of Direct Taxes, Department of Revenue for a period of three years w.e.f. 12.04.2007 (FN) and until further orders.

SHYAMALA MOHAN, Under Secy.

The 25th April 2007

No. 46 : (F. No. A-19012/9/2007-Ad. I).—The President is pleased to appoint Shri Sudhir Kumar Tyagi, IRTS (IT : 89) as Director in the Department of Revenue for a period of five years w.e.f. 23.04.2007 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

SHYAMALA MOHAN, Under Secy.

The 30th April 2007

No. 47 : (F. No. A. 19014/03/2007-Ad. I).—In supersession of this Department's notification No. 35 dated 28.03.2007, President is pleased to appoint Shri S. Narayanaswamy, Personal Assistant of Department of Revenue of Central Secretariat Stenographers Service as Section Officer (SL/2004) in the Department of Revenue on the basis of qualifying the Combined Limited Departmental Competitive Examination, 2004 w.e.f. 19.01.2007 (FN) until further orders.

2. The appointment of Shri S. Narayanaswamy to the grade of Section Officers of Central Secretariat Service shall be subject to the outcome of the Writ Petition C No. 13245-60/2005 filed by Shri Kailash Chander & Ors. Vs. Union of India & Ors. Before the Hon'ble Delhi High Court.

SHYAMALA MOHAN, Under Secy.

The 3rd May 2007

No. 48 (F. No. A-19013/13/2007-Ad. I).—The President is pleased to appoint Ms. Ashnima Neb, IRS (IT : 99) as Under Secretary in the Central Board of Direct Taxes, Department of Revenue for a period of three years w.e.f. 24.04.2007 (FN) and until further orders.

SHYAMALA MOHAN, Under Secy.

No. 49 : (F. No. A. 38013/2/2007-Ad. I).—Smt. Lakshmi Bhangalia, an officer of the Central Secretariat Service, posted as Section Officer in the Department of Revenue retired from Government Service on 30 April 2007 (AN) on attaining the age of superannuation.

SHYAMALA MOHAN, Under Secy.

No. 50 : (F. No. A. 38013/1/2007-Ad. I).—Shri Madan Lal, an officer of the Central Secretariat Service, posted as Section Officer in the Department of Revenue voluntarily retired from Government Service on 18 April 2007 (FN) under Rule 48 of CCS (Pension) Rules, 1972.

SHYAMALA MOHAN, Under Secy.

No. 51 : (F. No. A. 19011/10/2006-Ad. I).—Shri S. P. S. Pundhir, an officer of the Indian Revenue Service (Customs & Central Excise : 1970), posted as Director General, Central Economic Intelligence Bureau in the Department of Revenue retired from Government Service on 30 April 2007 (AN) on attaining the age of superannuation.

SHYAMALA MOHAN, Under Secy.

The 4th May 2007

No. 52 : (F. No. A-19012/8/2007-Ad. I).—The President is pleased to appoint Shri Sanjiv Srivastava, IRS (C & CE : 91) as Director in the Department of Revenue for a period of five years with effect from 30.04.2007 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

SHYAMALA MOHAN, Under Secy.

No. 53 : (F. No. A-19012/13/2002-Ad. I).—The President is pleased to appoint Shri N. M. Krishnan, Deputy Secretary (CSS) in the Department of Revenue as a Director in the scale of pay of Rs. 14,300-400-18,300/- in the same Department with effect from 30.04.2007 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

SHYAMALA MOHAN, Under Secy.

The 7th May 2007

CORRIGENDUM

In partial modification of this Department's Notification No. 32 (F. No. 19012/4/2007-Ad. I) dated 23rd March, 2007, the date of joining of Shri D. Srinivas, IRS (IT : 92) as Direction in this department, may be substituted and read as "19.03.2007 (FN)" in place of 19.03.2007 (AN).

SHYAMALA MOHAN, Under Secy.

**(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)
BANKING DIVISION**

New Delhi, the 25th May 2007

No. A-12026/2/2006-DRT-DRT.—The Central Government is pleased to appoint Shri Hanuman Saran Sharma, Vidhi Rachana Adhikari, Law & Legal Affairs Department, Government of Rajasthan, Jaipur to the post of Secretary/Registrar in the Debts Recovery Tribunal, Jaipur on deputation basis, in the pay scale of Rs. 12,750-375-16,500/- for a period of three years w.e.f. 11.05.2007 (F. N.) or until further orders, whichever is earlier.

A. THOMAS, Under Secy.

No. A-12026/3/2005-DRT.—The Central Government is pleased to appoint Smt. Mary Jacob, Under Secretary, Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions (Deptt. of Personnel & Training), New Delhi to the post of Recovery Officer in the Debts Recovery Tribunal, Bangalore on deputation basis, in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- for a period of three years w.e.f. 23.04.2007 (F. N.) or until further orders, whichever is earlier.

A. THOMAS, Under Secy.

**MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS
(DEPARTMENT OF CHEMICALS &
PETROCHEMICALS)**

New Delhi, the 11th June 2007

No. A-19011/6/2007-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Arun Ramanathan, IAS (TN : 73) as Secretary, Department of Chemicals & Petrochemicals with effect from the afternoon of 11th June 2007.

YASHVIR SINGH, Dy. Secy.

(DEPARTMENT OF FERTILIZERS)

New Delhi, the 28th May 2007

No. A. 12011/18/2006-HR-II.—The President is pleased to appoint Shri Manoj Kumar Gupta, IRS as

Director in the Department of Fertilizers for a period of five years w.e.f. the forenoon of 21st May, 2007 (prefixing 19th & 20th May, 2007 being closed holidays) or until further orders whichever is earlier under Central Staffing Scheme of the Government of India.

2. He is designated as Director (PSU).

HARI PAL, Under Secy.

**MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES & PUBLIC
ENTERPRISES**

(DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES)

New Delhi-110 003, the 7th June 2007

No. A-32013/1/2005-Admn.—The President is pleased to extend the ad hoc appointment of Shri M. P. Fulzele, as Joint Director in the Department of Public Enterprises, Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises for a further period of six months w.e.f. 16.05.2007 or till the post in question is filled up on regular basis or until further orders, whichever is the earliest.

D. DWARKANATH, Under Secy.

**MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND
PUBLIC DISTRIBUTION**

(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

New Delhi, the 12th June 2007

No. A-12011/4/2000-Estt.—In Exercise of the power conferred by Sub-section (2) of Section 3 of the Forward Market Commission (Regulation) Act, 1952, the President is pleased to appoint Shri B. C. Khatua, IAS (MH : 76) as Chairman, Forward Market Commission, Mumbai in the scale of pay of Rs. 22,400-525-24,500/- with effect from the afternoon of the 31st May, 2007 under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Consumer Affairs, on the normal tenure terms of Central deputation on until further orders, whichever is earlier.

S. K. NAYAK, Dy. Secy.

No. A-12011/15/2006-Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training's Order No. 4/9/2006-CS I dated 4th June, 2007, the President is pleased to appoint Shri A. K. Ganguly, Under Secy. of Grade-I of CSS as Dy. Secy. (Selection Grade) of CSS on ad hoc basis in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/-, in the Department of Consumer Affairs with effect from the forenoon of 5th June, 2007 and until further orders.

2. The ad hoc promotion of Shri Ganguly shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointments or to claim seniority in the Selection Grade.

S. K. NAYAK, Dy. Secy.

New Delhi, the 18th June 2007

No. A-11011/03/04-Estt. (V. II).—The President is pleased to appoint Shri Suresh R. Nair, Recovery Inspector, Mumbai Debts Recovery Tribunal, as Assistant Director (Law) in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- on deputation basis in the Forward Markets Commission, Mumbai, with effect from the forenoon of the 25th May, 2007 for a period of one year or till further orders, whichever event occurs earlier.

KEWAL KRISHAN, Under Secy.

No. A-11011/03/04-Estt. (V. II).—The President is pleased to appoint Shri Sanjay Chadha, Assistant Enforcement Officer, Directorate of Enforcement, Foreign Exchange Management Act, Mumbai, as Assistant Director (Law) in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- on deputation basis in the Forward Markets Commission, Mumbai, with effect from the afternoon of the 15th May, 2007 for a period of one year or till further orders, whichever event occurs earlier.

KEWAL KRISHAN, Under Secy.

No. A-11011/03/04-Estt. (V. II).—The President is pleased to appoint Shri Neelambuj, Company Prosecutor Grade-III, Office of the Registrar of Companies, Mumbai, as Assistant Director (Law) in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- on deputation basis in the Forward Markets Commission, Mumbai, with effect from the forenoon of the 18th May, 2007 for a period of one year or till further orders, whichever event occurs earlier.

KEWAL KRISHAN, Under Secy.

No. A-11011/03/04-Estt. (V. II).—The President is pleased to appoint Shri B. N. Jha, Assistant Director (M), Spices Board (Regional Office), Ministry of Commerce and Industry, Mumbai, as Deputy Director (Accounts/Finance) in the scale of pay of Rs. 10,000—15,200/- on deputation basis in the Forward Markets Commission, Mumbai, with effect from the forenoon of the 21st May, 2007 for a period of one year or till further orders, whichever event occurs earlier.

KEWAL KRISHAN, Under Secy.

DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC
DISTRIBUTION

(DIRECTORATE OF VANASPATHI, VEGETABLE
OILS AND FATS)

New Delhi-110 003, the 23rd May 2007

No. A-12011/1/2005-Estt.—The President is pleased to extend the ad hoc appointment of Dr. A. Madhavan, Development Officer in the Directorate of Vanaspathi, Vegetable Oils and Fats as Assistant Director in the same organisation in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- w.e.f. 01.02.2007 for a period of six months or till the post is filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier.

S. K. WADHWA, Dy. Director (Admn.)

MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY)

New Delhi-110 003, the 17th May 2007

No. A-12011/05/2006-Estt.—The President is pleased to appoint Dr. S. Natesh as Scientist 'H' in this Department of scale of pay of Rs. 22,400-525-24,500/- on deputation basis for a period of two years with effect from the forenoon of 17th May, 2007 or until further orders, whichever is earlier.

S. C. AGRAWAL, Under Secy.

MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

New Delhi-110 003, the 7th June 2007

No. A-12012/14/2005-P. II (.).—The President is pleased to appoint Ms. Kusum Mishra as Deputy Economic Adviser in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- in the Ministry of Environment & Forests with effect from the afternoon of the 18th May, 2007.

RATI RAM, Dy. Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE &
COOPERATION)

New Dehi, the 31st May 2007

No. 38012/06/2007-Estt. I.—Shri P. K. Jalali, Jt. Secy. in the Department of Agriculture and Cooperation will retire from Government service with effect from the afternoon of 31st May, 2007 or attaining the age of superannuation.

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

The 1st June 2007

No. 27-2725/2007-Estt. I.—The President is pleased to appoint Shri K. Narayana Kumar, IAS (AM : 87) as Jt. Secy. in the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture & Cooperation in the pay scale of Rs. 18,400---22,400/- with effect from the forenoon of 1st June, 2007.

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ

New Delhi, the 14th June 2007

No. A-19012/2/2005-Estt.—Consequent upon his appointment as Member Secretary, National Capital Region Planning Board, Ministry of Urban Development, Shri P. D. Sudhakar, IAS (UP : 76) (on waiting) has relinquished charge of the post of Jt. Secy. in the Ministry of Panchayati Raj with effect from the forenoon of 14th June, 2007.

K. P. SAROHA, Under Secy.

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

New Delhi, the 6th June 2007

No. 13015/1/2005-SCD-VI.—The President is pleased to appoint the following officers as Director in the National Commission for Scheduled Caste (Group "A" Gazetted-Non-Ministerial) in the pay scale of Rs. 12,000-375-16,500/- on deputation basis with effect from the dates shown against their names for the period of four years or until further orders :—

Sl. No.	Name	Date of appointment	Place of posting
1.	Shri V. Elisha, Director	2.4.2007 (F.N.)	National Commission for Scheduled Castes, Hyderabad
2.	Shri R. D. Chandrahas, Director	13.4.2007 (F.N.)	National Commission for Scheduled Castes, Lucknow
3.	Dr. Virender, Kumar Rathi, Director	1.5.2007 (F.N.)	National Commission for Scheduled Castes, New Delhi

R. S. MEENA, Director

New Delhi, the 15th June 2007

No. 17015/21/2004-SCD (RI Cell).—In exercise of the Powers conferred by para 3 of Resolution regarding National Commission for Safai Karamcharis (published in the Gazetted of India 10.9.2004) the Central

Government hereby appoints Shri Mangilal Arya, Member of the Commission w.e.f. 8.6.2007 (Afternoon).

D.V.S. RANGA, Jt. Secy.

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

New Delhi, the 1st June 2007

No. 19011/22 2005-Estt.—In pursuance of DoPTs Order No. 2/2/2007-EO (SM. I) dated 30.05.2007, the President is pleased to relieve Ms. Meena Gupta, IAS (OR : 71) Secretary in the Ministry of Tribal Affairs with effect from the forenoon of 1st June, 2007 to take up her new assignment as Secretary in the Ministry of Environment and Forests.

ANIL KAKRIA, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS & INFORMATION TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS)

New Delhi, the 12th June 2007

No. A-12026 1/2005-Admn. II.—The President is pleased to appoint Dr. Vincent Barla, Under Secy., Department of Agriculture and Cooperation, Ministry of Agriculture as Director (Staff Relations) a General Central Service, Group 'A' post in the pay scale of Rs. 12,000-375-16,500/- in the Department of Telecommunications, on deputation basis for a period of four years with effect from the forenoon of 4th June, 2007 or till further orders, whichever is earlier.

2. The appointment of Dr. Barla to the above post will be on usual terms and conditions of deputation as contained in Ministry of Finance, Department of Expenditure OM No. F. 1 (II) E. III (B)/75 dated 7th November, 1975 as amended from time to time.

P. K. RAGHURAM, Under Secy.

(DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY)

NATIONAL INFORMATICS CENTRE

New Delhi-110 003, the 8th June 2007

No. 4506/NIC 2006-P&E-II.—The President is pleased to accept the resignation of Smt. V. Padmavati (Emp. Code No. 4506), from the post of Scientist 'B', National Informatics Centre—Andhra Pradesh State Unit, Hyderabad, with effect from the afternoon of 9.3.2007 and she is relieved of her duties from the same day. Her period of absence from 22.1.2007 to 9.3.2007 will be treated as *dies non*.

K. M. NAIR, Dy. Director (P&E-II)

(DEPARTMENT OF POSTS)

New Delhi-110 001, the 31st May 2007

Subject : Promotions and Postings to the post of Private Secretary (Gazetted) General Central Service Group 'B'.

No. 10-5/2006-SPG.—The Director General (Posts) is pleased to appoint the following officials to officiate on regular basis in the grade of Private Secretary (Gazetted) General Central Service Group 'B' in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from the date of assumption of charge and until further orders.

2. The officials on promotion to the grade of Private Secretary are posted to the circle mentioned against each :—

Sl. No.	Name of the Officer	Circle where working at present	Circle to which posted on promotion
1.	S/Shri/Smt. Veena Kapur	Delhi	BD, Directorate, Delhi
2.	V. S. Rao	A. P.	A. P.
3.	N. D. Arora	Delhi	PSCI, Ghaziabad
4.	Gurmeet Kaur (SC)	Delhi	Punjab
5.	Arbind Pd. Sinha	Bihar	U. P.
6.	Tribhuvan Nath Prasad	Bihar	U. P.
7.	Biva Ghose (SC)	Assam	West Bengal
8.	N. C. Das (SC)	Assam	Rajasthan
9.	G. P. Verma (SC)	M. P.	M. P.
10.	Sukumar Sur	N. E.	Orissa
11.	Lathika Nair	M. P.	Kerala
12.	Vimala Guru-swamy	Maharashtra	Maharashtra
13.	V. S. Kabbe	Maharashtra	Maharashtra
14.	K. K. Mohapatra	Orissa	Orissa
15.	P. C. Bose	West Bengal	West Bengal
16.	A. K. Howladar (SC)	West Bengal	Chhatisgarh

3. VIGILANCE/DISCIPLINARY CASE, IF ANY

In case any vig./disc case, of the type referred to the O. M. No. 22011/2/86-Estt. (A) dated 12.01.88 from DOP&T circulated vide this office memo No. 25-19/88-SPG dated 04.05.88 (subsequently) revised vide DoP&T memo No. 22022/4/91-Estt. (A) dt. 14.09.92 circulated vide this office memo No. 25-19/99-SPG dated 13.10.92

is pending against any of the officials, he/she should not be relieved for posting without obtaining specific orders from this office. The officials against whom any punishment is current should not be promoted before expiry of currency of punishment. A report in this regard be submitted immediately.

4. OPTION FOR FIXATION OF PAY

All the officers who wish to give option for choosing date for fixation of pay under FR-22(1)(A)(1) should do so within one month from the date of assumption of charge.

5. OFFICERS ALLOTTED OUT OF THEIR PARENT CIRCLES

Officials who on promotion to the grade of Private Secretary have been posted out of the Circle will report to the Head of the Circle to which they are posted on receipt of posting orders to the concerned Circle, which shall be issued by a date not later than one month from the date of this order.

6. Relevant Charge reports may please be sent to this office in due course

B. P. PANT, Asstt. Director General (SGP)

The 6th June 2007

CORRIGENDUM

Reference notification No. 12-3/2002-SPG dated 2.5.2007 Smt. C. D. Malik has assumed the charge of the post of Jt. Director (Official Language) in the pay scale of Rs. 12,000-375-16,500/- in GCS Group 'A' in the Department of Posts on the forenoon of 8.5.2007 on purely temporary and ad hoc basis.

B. P. PANT, Asstt. Director General (SGP)

MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 8th June 2007

No. E(GP)/2004-1/58.—The President is pleased to appoint the undermentioned 22 Group 'B' officers of Traffic Department of Indian Railways to the Junior Scale of Indian Railway Traffic Service with effect from 16th April, 2007 on the Railways noted against each.

PANEL FOR 2005-2006 VACANCIES

Sl. No. Name of Officer (S/Shri)

EAST CENTRAL RAILWAY

1. K. S. Verma
2. B. N. P. Verma

Sl. Name of Officer (S/Shri)
No.

of superannuation with effect from the afternoon of
30.04.2007

NORTHERN RAILWAY

1. P. K. Varshney
2. G. N. Sharma

- (i) Shri R. Ramasa Addl. Member
(Railway Stores)
- (ii) Shri H. R. Malhotra Section Officer

MATHEW JOHN, Secy., Railway Board

SOUTHERN RAILWAY

1. A. P. Muthuramalingam
2. P. Bright Samuel

SOUTHERN WESTERN RAILWAY

1. S. T. Basti

No. ERB-I/2007/10/4.—Shri R. Sivadasan, Financial Commissioner, Railways and ex-officio Secretary to the Government of India in the Ministry of Railways retired from service with effect from the afternoon of 31.05.2007, on attaining the age of superannuation.

MATHEW JOHN, Secy., Railway Board

WESTERN RAILWAY

1. Chandramohan
2. Ashwani J. Sharma
3. Kamlesh Tiwari
4. T. Vishwanathan
5. N. K. Salve (SC)

PANEL FOR 2006-2007

EAST COAST RAILWAY

1. P. S. R. Anjanuili

NORTHERN RAILWAY

1. A. K. Gupta

SOUTHERN RAILWAY

1. D. Durga Prasad
2. R. Raghuraman

SOUTH WESTERN RAILWAY

1. T. Raghavan (SC)

WESTERN RAILWAY

1. R. K. Pundhir
2. P. D. Bhushan
3. J. C. Bridi (SC)
4. M. K. Verma
5. C. P. Verma

MATHEW JOHN, Secy., Railway Board

The 13th June 2007

No. ERB-I/2007/10/4.—The following officers of Railway Board retired from service on attaining the age

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 5th June 2007

No. 7/4/2006-GWB.—The President is pleased to appoint Shri D. S. C. Thambi, Superintending Hydrogeologist to the post of Regional Director (Group 'A' post) in the Central Ground Water Board by promotion in the scale of pay of Rs. 14,300-400-18,300/- w.e.f. the forenoon of 01.01.2007.

SOHAN S. SAINI, Under Secy.

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 4th June 2007

No. PF/2606-IB.—The competent authority in the Ministry of Information and Broadcasting appoints Shri Naiem Gulshan Raina to the Senior Grade of Indian Information Service, Group 'B' (Gazetted) in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from the forenoon of 28th May, 2007.

2. Shri Raina is placed on probation for a period of two years with effect from the date of his appointment to Senior Grade of I.S. Group 'B'.

AMRIT LAL, Under Secy.

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

New Delhi, the 19th June 2007

No. A-32012-2 2006-ISH. II.—The President is pleased to appoint Shri K. C. S. Rao to the post of Director (Safety) in the Directorate General of Factory Advice Service & Labour Institutes, Mumbai, with effect from 26.04.2007 (F.N.) and until further orders.

M. S. AZAD, Under Secy.